

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।  
(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-14 / 2020-21

सरकार

-बनाम-

गंगा सागर सोनी  
आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -1809/अ० शा० दिनांक - 19.08.2020 के द्वारा वादी श्री राजेश हसदा पे०-स्व० राम हंसदा साकिन-भौरा थाना-सुदामडीह जिला-धनबाद सम्प्रति खान निरीक्षक, गुमला के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर जारी थाना काण्ड सं०-12/2020 दिनांक-21.06.2020 धारा 379/411/34 भा० द० वि० एवं JMMR. 2004 Act. 4/54 JPMITS Rule-2017 Act. 7/13 के तहत जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या CG14MF - 9614, चेचिस सं०- MBNABAEXKHRB00577 के मालिक गंगा सागर सोनी पिता-ईश्वर सोनी ग्राम-तेलीटोली थाना-जशपुर जिला-जशपुर (छ०ग०) के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए जिससे उनका पक्ष को नहीं सुना गया।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि श्री राजेश हसदा पे०-स्व० राम हंसदा साकिन-भौरा थाना-सुदामडीह जिला-धनबाद सम्प्रति सहायक खनन निरीक्षक, गुमला लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से बालू का परिवहन करने का आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 (यथा) संशोधित) के नियम-4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा-4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम-7 एवं 13 के तहत मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या CG14MF - 9614, चेचिस सं०- MBNABAEXKHRB00577 के विरुद्ध बालू का उत्खनन कर परिवहन कर व्यवसाय करने के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:-

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं०-360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence, the same cannot be dealt with in the manner disputed in a way weapon of offence, the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि जप्त किये गये वाहनों के द्वारा अबन्दोबस्त नदी घाट से बालू का उठाव कर एवं अवैध रूप से बालू का भंडारित कर परिवहन कार्य किया जा रहा है। साथ ही इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नहीं रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नहीं होने के कारण उसको अवैध रूप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों में उल्लिखित नियमों के विरुद्ध किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन संख्या CG14MF - 9614, चेचिस सं०- MBNABAEXKHRB00577 को राजसात करता हूँ।  
आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित

28.12.22  
उपायुक्त,  
गुमला

28.12.22  
उपायुक्त,  
गुमला